

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014—श्रावण 2, शक 1936

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्र. एफ 6-6-2014-अट्टावन-क्रमांक बी.-11-5-2014—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2012-क्रेडिट-II, दिनांक 04 फरवरी 2014 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को लागू किये जाने हेतु जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 13015-02-2012-क्रेडिट-II, दिनांक 21 फरवरी 2014 में जारी प्रशासनिक अनुमोदन में दिए गए, दिशा-निर्देश के आधार पर एच.डी.एफ.सी. अर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी (HDFC ERGO GIC LTD), एग्रिकल्चरल इश्योरेंस कंपनी (AGRICULTURAL INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD-AIC), इफको टोक्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी (IFFCO TOKIO GIC LTD ) एवं चोला मण्डलम जी.आई.सी. (CHOLA MANDALAM GIC LTD), के माध्यम से मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2014-15 में खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है.

2. मध्यप्रदेश राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2014-15 मौसम खरीफ एवं रबी के लिए जिलों/तहसीलों/उद्यानिकी फसलें एवं बीमा कंपनियों की सूची निम्नानुसार है :—

क्र.	जिला	अधिसूचित फसल	अधिसूचित तहसील	कृषक श्रेणी	बीमा कंपनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुरैना	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूल गोबी, पत्ता गोबी, प्याज. आलू हरी मटर	पोरसा, अम्बाह, जौरा, मुरैना, सबलगढ़ पोरसा, आम्बाह, जौरा मुरैना, जौरा, सबलगढ़, केलारस, पहाड़गंज.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	भिण्ड	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. आलू	भिण्ड, अटेर, गोहद, लहार, रौन  भिण्ड	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
3	श्योपुरकलां	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. धनियॉ लहसुन आलू	श्योपुरकलां, विजयपुर  श्योपुरकलां, कराहल, विजयपुर श्योपुरकलां, कराहल, विजयपुर श्योपुरकलां, कराहल, विजयपुर	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
4	ग्वालियर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. आलू	गिर्द, डबरा, भितरवार, चिनोर  मुरार	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
5	शिवपुरी	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. धनियॉ आलू लहसुन हरी मटर	शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी  बदरवास शिवपुरी शिवपुरी, कोलारस, पोहरी शिवपुरी, पोहरी	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
6	दतिया	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज	दतिया	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
7	अशोकनगर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. धनियॉ	अशोकनगर  अशोकनगर, ईसागढ़, मुंगावली, चंदेरी	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	गुना	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. धनियॉ लहसुन	गुना, राघोगढ़  गुना, आरोन, बमोरी, राघोगढ़, मक्सूदनगढ़, चाचौड़ा, कुम्भराज. गुना, आरोन, बमोरी, राघोगढ़	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
9	नीमच	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. धनियॉ लहसुन	नीमच, जावद, मनासा, सिंगरौली, जीरन, रामपुर.  मनासा, जावद नीमच, जावद, मनासा	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
10	शाजापुर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. धनियॉ लहसुन  आलू संतरा	शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना.  शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना. शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, कालापीपल. शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना. शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
11	मन्दसौर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. संतरा धनियॉ लहसुन	मन्दसौर, सीतामऊ, मल्हारगढ़, गरोठ, भानपुरा, सुवासरा, शामगढ़, दलौदा.  सीतामाउ, गरोठ, भानपुरा मन्दसौर, सीतामऊ, मल्हारगढ़, गरोठ, भानपुरा, सुवासरा, शामगढ़, दलौदा. मन्दसौर, सीतामऊ, मल्हारगढ़, गरोठ, भानपुरा, सुवासरा, शामगढ़, दलौदा.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
12	देवास	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. मिर्च	देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव, बागली, हाटा पिपल्या, सतवास, उदयनगर. देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव, बागली, हाटा पिपल्या, सतवास, उदयनगर.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	लहसुन		देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव, बागली, हाटा पिपल्या, सतवास, उदयनगर.		
	आलू		देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव, बागली, हाटा पिपल्या, सतवास, उदयनगर.		
	धनिया		देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव, बागली, हाटा पिपल्या, सतवास, उदयनगर.		
	संतरा		टोंकखुर्द, कन्नौद.		
13	आगरमालवा	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	आगर, बड़ोद, सुसनेर	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
	धनियाँ		बड़ोद, सुसनेर, नलखेड़ा		
	लहसुन		सुसनेर		
	आलू		आगर, बड़ोद, सुसनेर, नलखेड़ा		
	संतरा		आगर, बड़ोद, सुसनेर, नलखेड़ा		
14	रतलाम	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा, पिपलौदा, आलोट, ताल, रावटी.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
	मिर्च		रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा, पिपलौदा, आलोट, ताल, रावटी.		
	संतरा		आलोट, पिपलौदा		
	लहसुन		रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा, पिपलौदा, आलोट, ताल, रावटी.		
	हरी मटर		रतलाम		
	धनियां		रतलाम, पिपलौदा		
	आलू		रतलाम, पिपलौदा, जावरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	उज्जैन	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	उज्जैन, घटिया, बड़नगर, नागदा, महिदपुर, तराना.	खाचरोद, ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
	संतरा		महिदपुर, तराना.		
	लहसुन		उज्जैन, घटिया, बड़नगर, नागदा, महिदपुर, तराना.		
	आलू		उज्जैन, घटिया, बड़नगर, नागदा, महिदपुर, तराना.		
	धनियाँ		उज्जैन, घटिया, बड़नगर, नागदा, महिदपुर, तराना.		
16	झाबुआ	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	झाबुआ, मेघनगर, थांदला, पेटलावद	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
	हरी मटर		झाबुआ, मेघनगर, थांदला, पेटलावद		
17	बड़वानी	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	राजपुर	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
	मिर्च		बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेन्धवा, निवाली, अंजड़, बरला.		
	केला		बड़वानी, ठीकरी, पानसेमल,		
	लहसुन		पानसेमल		
18	बुरहानपुर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	खकनार	ऋणी और अऋणी कृषक.	एग्रीकल्चरल इश्योरेंस कम्पनी.
	मिर्च		बुरहानपुर		
	केला		बुरहानपुर, खकनार		
	धनियाँ		बुरहानपुर, खकनार		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	इन्दौर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  लहसुन  आलू	इन्दौर, महु, सांवेर, देपालपुर, हातोद  इन्दौर, महु, सांवेर, देपालपुर  इन्दौर, महु, सांवेर, देपालपुर	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
20	खण्डवा	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  मिर्च  केला  धनियाँ	खण्डवा, पंधाना, पुनासा, खालवा, हरसूद.  खण्डवा, छेगांव माखन, पंधाना, पुनासा, खालवा.  पन्धाना  खण्डवा, पंधाना, पुनासा	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
21	धार	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  मिर्च  केला  आलू  धनियाँ  लहसुन  संतरा  हरी मटर	बदनावर, धार, सरदारपुर  बदनावर, सरदारपुर, धार, कुच्छी, धरमपुरी, डही, मनवार, गंधवानी.  बदनावर, सरदारपुर, धार, कुच्छी, धरमपुरी, डही, मनवार, गंधवानी.  बदनावर, सरदारपुर, धार, कुच्छी, धरमपुरी, डही, मनवार, गंधवानी.  धार, सरदारपुर  बदनावर, सरदारपुर, धार, कुच्छी, धरमपुरी, डही, मनवार, गंधवानी.  बदनावर  धार	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	खरगौन	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  मिर्च  केला	महेश्वर  खरगौन, सेगांव, भीकनगांव, झिरन्या, गोगांवा, महेश्वर, बड़वाह, कसरावद, भगवानपुरा.  महेश्वर, कसरावद	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
23	अलीराजपुर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	अलीराजपुर, सोण्डवा, भावरा, जोबट	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
24	सीधी	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू	रामपुर नैकिन, गोपद बनास, सिंहावल, मझौली, कुसमी.  रामपुर नैकिन, गोपदबनास, सिंहावल	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
25	अनूपपुर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	अनूपपुर, कोतमी, जैतहरी, पुष्पराजगढ़	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
26	रीवा	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू	हुजूर, रायपुर, मउगंज, हनुमना, गुढ़, त्योंथर, सिरमौर, जवा, सेमरिया, मनगवां, नईगढ़ी.  हुजूर, रायपुर, मउगंज, हनुमना, गुढ़, त्योंथर, सिरमौर, जवा, सेमरिया, मनगवां, नईगढ़ी.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
27	सतना	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू  हरी मटर	रघुराजनगर, रामपुर, नागोद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, मझगवां, कोटर, बिरसिंहपुर.  सुहावल, मैहर, रामपुर,  रघुराजनगर, रामपुर, नागोद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, मझगवां, कोटर, बिरसिंहपुर.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	सिंगरौली	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू	देवसर, चितरंगी, सिंगरौली  सिंगरौली, देवसर, चितरंगी	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
29	शहडोल	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू	सोहागपुर, जैतपुर, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढ़ार, गोहपारू, बडवारा.  सोहागपुर, जैतपुर, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढ़ार, गोहपारू, बडवारा.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
30	उमरिया	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	पाली, चंदिया, नौराजाबाद	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
31	पन्ना	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू	पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर, अजयगढ़, रेपुरा, अमानगंज, देवेन्द्रनगर, सिमारिया.  पन्ना, गुन्नौर, अजयगढ़.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
32	दमोह	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  धनियाँ  आलू	दमोह, तेंदूखेड़ा, जबेरा, हटा, पटेरा, बटियागढ़, पथरिया.  तेन्दूखेड़ा, पथरिया, पटेरा  दमोह	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
33	छतरपुर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  लहसुन  आलू	छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौंडी, गौरीहार, बिजावर, बड़ामलहरा, बक्सवाहां, चन्दला, धुवारा, महाराजपुर.  छतरपुर  छतरपुर, राजनगर, नौगांव.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	टीकमगढ़	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	टीकमगढ़, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, पलेरा,, जतारा, ओरछा, खरगापुर, मोहनगढ़, लिधौरा.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
	हरी मटर		टीकमगढ़, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पलेरा, जतारा, पृथ्वीपुर.		
	धनियाँ		टीकमगढ़, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पलेरा, जतारा, पृथ्वीपुर.		
	आलू		जतारा, पृथ्वीपुर		
35	सागर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	सागर, बीना, खुरई, राहतगढ़, बंडा, रहली, केसली, शाहगढ़, देवरी, मालथौन, गढ़ाकोटा.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
	लहसुन		देवरी		
	आलू		बंडा, रहली, देवरी, सागर		
	धनियाँ		बंडा, रहली, देवरी, सागर		
36	छिन्दवाड़ा	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	छिन्दवाड़ा, मोहखेड़, चौरई, अमरवाड़ा, तामिया, परासिया, बिछुआ, सौंसर, पाहुर्ना.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
	संतरा		छिन्दवाड़ा, मोहखेड़, चौरई, अमरवाड़ा, तामिया, परासिया, बिछुआ, सौंसर, पाहुर्ना.		
	हरी मटर		छिन्दवाड़ा		
	आलू		छिन्दवाड़ा, मोहखेड़, परासिया.		
37	नरसिंहपुर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.	नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा, तेन्दूखेड़ा.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
	धनियाँ		नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा, तेन्दूखेड़ा.		
	आलू		नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा, तेन्दूखेड़ा.		
	हरी मटर		नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	कटनी	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू	बहोरीबन्द, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा, कटनी, रीठी, बड़वारा, विजयराघोगढ़, बरही.  बहोरीबन्द, बड़वारा, विजयराघोगढ़.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एग्रीकल्चरल इश्योरेंस कंपनी.
39	सिवनी	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू हरी मटर	सिवनी, छपारा  सिवनी सिवनी, छपारा	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम्, जी.आई.सी.
40	डिंडोरी	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू	डिण्डोरी, शहपुरा, बजाग  डिण्डोरी	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम् जी.आई.सी.
41	मण्डला	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज	मण्डला, बिछिया, घुघरी, मोहगांव, नैनपुर, निवास.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम्, जी.आई.सी.
42	जबलपुर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  हरी मटर  आलू	जबलपुर, कुन्डम, सिहोरा, पाटन, मझौली, शहपुरा, पनागर.  जबलपुर, कुन्डम, सिहोरा, पाटन, मझौली, शहपुरा, पनागर.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
43	बालाघाट	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  धनियाँ  आलू	बालाघाट, किरनापुर, लालबर्वा, वारासिवनी, कटंगी.  बालाघाट  बालाघाट	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम्, जी.आई.सी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	भोपाल	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  आलू हरी मटर	हुजूर, बैरसिया.  हुजूर, बैरसिया. हुजूर, बैरसिया.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
45	सीहोर	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  संतरा लहसुन आलू	सीहोर, आप्टा, इछावर, बुदनी, नसरुल्लागंज.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
46	विदिशा	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  मिर्च  धनियाँ  हरी मटर  संतरा  आलू	विदिशा, ग्यारसपुर, नटेरन, बसौदा, कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद, त्योंदा, गुलाबगंज, पठारी.  विदिशा, ग्यारसपुर, नटेरन, बसौदा, कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद, त्योंदा, गुलाबगंज, पठारी.  बासोदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी.  ग्यारसपुर, बासोदा.  कुरवाई, सिरोंज.  ग्यारसपुर, बासोदा, सिरोंज, पठारी, शमशाबाद, त्योंदा, गुलाबगंज.	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
47	राजगढ़	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  संतरा  धनियाँ  लहसुन  आलू	खिलचीपुर, जीरापुर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, पचौर, राजगढ़.  राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर, जीरापुर,  राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर, जीरापुर,  ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर.  ब्यावरा	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	रायसेन	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. आलू	रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी, गोहरगंज, बरेली, सुल्तानपुर. सिलवानी	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
49	होशंगाबाद	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज.  संतरा हरी मटर	सोहागपुर, बाबई, पिपरिया, बनखेड़ी, होशंगाबाद, सिवनी मालवा.  इटारसी केशला पिपरिया	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.
50	बैतूल	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज  संतरा  आलू  हरी मटर	बैतूल, आमला, मुलताई, आठनेर, भैसदेहीं, घोड़ाडोंगरी.  मुलताई, प्रभातपट्टन, भैसदेही.  बैतूल, आमला, मुलताई, आठनेर, भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, प्रभातपट्टन.  बैतूल, भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, प्रभातपट्टन.	ऋणी और अऋणी कृषक.	चोला मण्डलम, जी.आई.सी.
51	हरदा	<b>खरीफ फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज. <b>रबी फसलें—</b> टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज संतरा	टिमरनी, हरदा, खिरकिया, सिराली, रेहटगांव, हंडिया.  हरदा	ऋणी और अऋणी कृषक.	एच.डी. एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी.

3. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, बीमा कंपनियोंवार कुल देय प्रीमियम राशि (जिसमें कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि भी सम्मिलित है), जोखिम अवधि, आवरीत जोखिम बीमा राशि का बीमा हेतु जिलेवार, तहसीलवार अंतिम तिथियां, संदर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्रों का विवरण आदि परिशिष्ट 1 (अ), परिशिष्ट 2(अ), परिशिष्ट 3(अ), परिशिष्ट 4(अ) अनुसार हैं, जिसे विभाग की वेब साईट [www.mphorticulture.gov.in](http://www.mphorticulture.gov.in) में circular पर देखा जा सकता है.

4. इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 मौसम खरीफ एवं रबी में निम्नानुसार किया जाएगा :—

4. 1 यह योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के सभी किसानों को उपलब्ध होगी कन्तु योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा अऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक होगी.

- 4.2 इस योजना हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार ऋणी किसान वही है, जिनके लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान से अनुमोदित ऋण/साख स्वीकृत किया गया है.
- 4.3 बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी/इफको टोकियो/एच.डी.एफ.सी. अर्गो/चोला मण्डलम् द्वारा क्रियान्वयन के पूर्व परिशिष्ट-1(अ), 2(अ), 3 (अ) 4(अ) अनुसार घोषणा की जाएगी. व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि प्रति हेक्टेयर का गुणांक होगा. गणना निम्न सूत्रानुसार की जायेगी.
- (बीमित राशि=जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)×पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर)
- 4.4 फसलवार जोत के अन्तर्गत क्षेत्र की प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी:—
- अ. **ऋणी कृषक** : अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा उसके द्वारा पहले ही, वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा (मैकजीमम बारोइंग लिमिट, एमबीएल) निश्चित करने के उद्देश्य के लिए ऋण आवेदन-पत्र में दिए गए आधार पर की जाती है.
- ब. **अऋणी कृषक** : किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा.
- 4.5 इस योजना का संचालन अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र में क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा. क्षेत्र दृष्टिकोण का आशय, संदर्भित इकाई क्षेत्र से है. संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और दावा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है.
- 4.6 प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है. किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि व्यावसायिक फसल के लिये राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी. प्रीमियम राशि का 50% कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा (फसलवार, क्षेत्रवार ब्यौरा) परिशिष्ट-1 (अ) से परिशिष्ट-4 (अ) में उपलब्ध है.
- 4.7 प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित बीमा कंपनी (एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी/इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी/एच.डी.एफ.सी. अर्गो/चोला मण्डलम्) उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा.
- 4.8 बैंकों के लिये सेवा शुल्क : नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 4 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा.

### 5. दावा भुगतान प्रक्रिया :

- 5.1 दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मौसम केन्द्र से कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम एवं कीट अनुकूल मौसम के आंकड़े प्राप्त होने पर योजना के प्रावधानों के अनुसार [परिशिष्ट 1(ब) से 4 (ब) जिसे विभाग की वेब साईट [www.mphorticulture.gov.in](http://www.mphorticulture.gov.in) में circular पर देखा जा सकता है]. कृषकों को किया जाएगा.
- 5.2 परिशिष्ट 1 (ब) से परिशिष्ट 4 (ब) पर दर्शाई गई जिलेवार टर्मशीट में उल्लेखित आंकड़ों में भिन्नता पाये जाने पर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत टर्मशीट को अंतिम माना जायेगा.
- 5.3 चालू वर्ष में मौसम के आंकड़ों का स्रोत परिशिष्ट-1 (अ) से 4 (अ) में दर्शाया गया है. दावा प्रक्रिया स्वचलित होगी. संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषक के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुए दावा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी.
6. अऋणी कृषकों का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और उप संचालक उद्यानिकी के द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् ही आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं वानिकी प्रक्षेत्र द्वारा प्रीमियम अनुदान का भुगतान किया जायेगा.
7. सभी बीमा कंपनियों को बीमे की कार्यवाही बैंकों के माध्यम से करना होगा.
8. सभी बीमा कंपनियों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों की सूची बैंकों से प्राप्त कर विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी.
9. सभी बीमा कंपनियाँ जो इस योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रही हैं, व्यापक प्रचार-प्रसार करके किसानों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगी एवं इसकी सूचना विकासखण्ड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी, संभागीय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं संचालक, उद्यानिकी एवं वानिकी प्रक्षेत्र को नियमित रूप से प्रेषित करेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.